

## केंद्रीय विद्यालय सीयूराज बांदरसिंदरी, अजमेर – 305817

फा.सं. / 132292089 / केविसीयूराज-बा.सि. / 2018-19 / 480

दिनांक: 14.03.2019

### फर्म पंजीकरण सूचना

सत्र 2019-20 के लिए पंजीकृत फर्मों से विद्यालय में विविध सामान आपूर्ति एवं सेवाएं प्रदत्त कराने हेतु फर्म पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फर्म पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र व संपूर्ण जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट [WWW.KVCURAJBANDARSINDRI.ORG](http://WWW.KVCURAJBANDARSINDRI.ORG) देखें अथवा व्यक्तिशः विद्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र समुचित रूप से भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ दिनांक 10.04.2019 दोपहर 03:00 बजे तक पोस्ट/हस्तगत विद्यालय में जमा करवा सकते हैं।

प्राचार्य

### केंद्रीय विद्यालय, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान परिसर, बांदर सिंदरी में वित्तीय वर्ष 2019-20 के किये सामग्री एवं सेवाएं क्रय करने हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता फर्मों का पंजीकरण

केंद्रीय विद्यालय, बांदर सिंदरी वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामग्री एवं सेवाएं क्रय करने हेतु विभिन्न आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता फर्मों जो कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी केमरा, वाटर कूलर एवं प्यूरिफायर, कंप्यूटर एवं फोटोस्टेट मशीन की आपूर्ति करती हो एवं उपर्युक्त हेतु रख-रखाव (AMC) की सेवा प्रदान करती हो, आपूर्तिकर्ता फर्मों जो मेडल, मुद्रण, प्रकाशन, फर्नीचर एवं फिक्चर, पुस्तकें, स्टेशनरी फोटोग्राफी, प्रयोगशाला का सामान, वाद्ययंत्र, खेलकूद का सामान, दृश्य एवं श्रव्य (Audio Visual Aids) के साधन, बिजली एवं सेनेट्री का सामान आदि सामान की आपूर्ति करती हो | फर्मों जो टेंट शामियाना, वाहन (बस/टैक्सी/कार), वस्त्र, आभूषण आदि किराए पर उपलब्ध करवाते हो | एजेंसी जो माली, साफ-सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैटरिंग (Catering) आदि मैनपावर सुविधा प्रदान करती हो, का पंजीकरण करना चाहता है | उपर्युक्त सामग्री एवं सेवाएं विस्तृत एवं अंतिम नहीं हैं, इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री/सेवा प्रदाता फर्मों भी पंजीकरण करवा सकती हैं।

सम्बंधित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज आवेदन के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें | पंजीकरण अधिकृत विशिष्ट आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता का ही हो सकेगा, अतः आवेदन केवल उसी सामान/सेवा के लिए आवेदन करें, जिसके लिए फर्म अधिकृत है।

**नोट: पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.04.2019 दोपहर 03:00 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए**

प्राचार्य